

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019—कार्तिक 15, शक 1941

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. एफ 23-02-2004-4-पच्चीस.—विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 जून 2019 द्वारा गठित अनुसूचित जाति राज्य सलाहकार मण्डल में क्रमांक-8 पर श्री राकेश सिंह, माननीय विधायक को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

2. उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति राज्य सलाहकार मण्डल में मनोनीत श्री राकेश सिंह, के स्थान पर श्री विष्णु खत्री, माननीय विधायक, बैरसिया, जिला भोपाल को सदस्य मनोनीत करता है। शेष आदेश दिनांक 10 जून 2019 यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कुमार, प्रमुख सचिव।